

Instruction for NEET PG (MD/MS) Admission

- 1- Download **Admission Form** from University website "www.upums.ac.in"
- 2- Print the Application form on A4 Size white Paper and fill it in own hand writing.
- 3- Arrange the Original Documents as per list mentioned in form.
- 4- Prepare Two Self Attested Photocopies of all the documents.
- 5- Prepare all Affidavit's as per list.
- 6- After completion of above formalities report to the Dean's Office at Administrative Block of the University for the admission on or before the last date.
- 7- Submit your filled Application Form along with Photocopies, Affidavit's and Original documents at the admission counter.
- 8- After verification of application form and document, complete your Medical Verification at the University and submit your fee.
- 9- After submission of fee your admission process will be completed

**नीट पी0जी0 की काउंसिलिंग के माध्यम से एम0डी0/एम0एस0
पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु आवश्यक अभिलेख एवं शुल्क**

मूल अभिलेख एवं दो स्व-प्रमाणित छायाप्रतियाँ

| SL. | REQUIRED ORIGINAL DOCUMENTS |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1- | Allotment Letter, Admit Card NEET PG Result/Rank Letter of NEET PG Online Registration Proof (only for UP state Counselling) |
| 2- | High School & Intermediate Pass Mark sheets & Certificates |
| 3- | Mark-sheets of MBBS 1 st , 2 nd , Final (Part-1 & Part-2) Professional Examinations |
| 4- | MBBS Degree Certificate |
| 5- | Internship Completion Certificate |
| 6- | Permanent Registration Certificate (State Medical Council/MCI/NMC) |
| 7- | Documents related to other course done after MBBS |
| 8- | Caste/other reservation certificates as per prescribed format (format enclosed) if applicable |
| 9- | Character Certificate issued by last educational institution |
| 10- | Migration Certificate |
| 11- | If working in any Govt. institution/ hospital then Relieving Letter OR If PMHS Service, then NOC and Relieving Letter |
| 12- | Photocopy of Aadhar Card and PAN Card |
| 13- | Affidavit on Rs.10/- (non judicial stamp paper) regarding gap and Other |
| 14- | Affidavit on Rs.100/- (non judicial stamp paper) regarding Penalty (wastage of seats) Bond |
| 15- | Affidavit on Rs.100/- (non judicial stamp paper) regarding service bond |
| 16- | Photograph of the candidate (same as pasted on NEET PG Application form) – 04 |

नोट— (शासनादेश दिनांक 13.07.2023 एवं महानिदेशालय के निर्देश 1399 दिनांक 30.06.2023 के अनुसार)

- **EWS** एवं **OBC** श्रेणी हेतु दिनांक 01 अप्रैल के बाद का निर्गत प्रमाण पत्र ही मान्य होगा।
- आरक्षण प्रमाण पत्र (दिव्यांगता एवं एन.सी.सी. प्रमाण पत्र को छोड़कर) उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्रारूप पर ही मान्य होगा। स्टेट कोटे की सीटों पर केन्द्रीय संस्थाओं के लिए जारी आरक्षण प्रमाण पत्र मान्य नहीं होंगे।
- दिव्यांगता प्रमाण पत्र भारत सरकार द्वारा निर्धारित केन्द्रों से निर्गत एवं निर्धारित प्रारूप पर ही मान्य होंगे।

शुल्क— (As per G.O. No. 2240/71-3-10-328/91 dated 20/08/2010)

| Fee Heads | GEN Fee Amount (Rs.) | OBC/SC/ST Fee Amount (Rs.) | Remarks |
|-----------------|-------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------|
| Tuition Fee | 24000.00 | 12000.00 | Annual |
| Other Fee | 4000.00 | 4000.00 | Annual |
| Development Fee | 2000.00 | 2000.00 | Annual |
| Admission Fee | 2000.00 | 2000.00 | Only at the time of admission |
| Caution Money | 10000.00 | 10000.00 | Only at the time of admission (Refundable) |
| Total | 42000.00 | 30000.00 | |

MODE OF FEE PAYMENT

(Fee will be valid only after document verification at Admission Counter of the University)

- ❖ **By Cash-** Cash Slip provided by Account Section of University & Cash Deposited by candidate in bank.

OR

- ❖ **By Demand Draft-** In favour of "Finance Officer UPUMS" payable at Bank of India, Saifai branch.

OR

- ❖ **By NEFT/ RTGS-**

A/c. Name : F.O., UPUMS

A/c No. : 728110200000006, Bank of India, Saifai (007281), Etawah,

IFSC Code : BKID0007281